



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 403] नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 10, 1982/भाद्रा 19, 1904
No. 403] NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 10, 1982/BHADRA 19, 1904

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

उद्योग मंत्रालय
(औद्योगिक विकास विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 10 सितम्बर 1982

कां०आ० 659(अ)/18क/प्रौ०वि०प्रौ०/प्र182 केन्द्रीय सरकार ने भारत के भूतपूर्व औद्योगिक विकास मंत्रालय के आदेश सं० कां०आ० 542(अ)/18 क/प्रौ०वि०प्रौ०/74 तारीख 13 सितम्बर, 1974 द्वारा अमृतसर शहर मिल्स कंपनी लिमिटेड, अमृतसर नामक औद्योगिक उपक्रम के एक कारखाने अमृतसर आयल वर्क्स, अमृतसर का 12 सितम्बर, 1979 तक, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, पांच वर्ष की अवधि के लिए प्रबन्ध ग्रहण करने के लिए प्रबन्ध बोर्ड नामक व्यक्ति निकाय को प्राधिकृत किया था ;

और भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय के आदेश सं० कां०आ० 454 (अ) तारीख 19 जुलाई 1978 द्वारा 12 सितम्बर, 1979 तक की जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, अवधि के लिए उक्त प्रबन्ध बोर्ड का स्थान एक नए प्रबन्ध बोर्ड ने ले लिया था ;

और भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय के आदेश सं० कां०आ० 525 (अ)/18क/प्रौ०वि०प्रौ०/79 तारीख 11 सितम्बर, 1979 द्वारा तारीख 13 सितम्बर, 18 जुलाई 1978 के उक्त दोनों आदेशों की अवधि 12 सितम्बर, 1981 तक जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, बढ़ा दी गई थी ;

और भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय के आदेश सं० कां०आ० 695(अ)/18क/प्रौ०वि०प्रौ०/81 तारीख 11 सितम्बर, 1981 द्वारा 13 सितम्बर, 1974 और 18 जुलाई, 1978 के उक्त दोनों आदेशों की अवधि 12 मार्च, 1982 तक जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, बढ़ा दी गई थी ;

और भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय के आदेश संख्या कां०आ० 134(अ)(क)/18क/प्रौ वि वि अ/81-तारीख 11 मार्च, 1982 द्वारा 13 सितम्बर, 1974 और 18 जुलाई, 1978 के उक्त दोनों आदेशों की अवधि 12 सितम्बर, 1982 तक, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, बढ़ा दी गई थी ;

और केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि लोकहित में यह समीचीन है कि क्रमशः तारीख 13 सितम्बर, 1974 और 18 जुलाई, 1978 के उक्त दोनों आदेश और अवधि के लिए प्रभावी बने रहें ;

अतः केन्द्रीय सरकार उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18क की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इसके द्वारा निदेश देती है कि तारीख 13 सितम्बर, 1974 और 18 जुलाई, 1978 के उक्त दोनों आदेश, दिल्ली उच्च न्यायालय के 3 सितम्बर, 1982 को सिविल रिट याचिका संख्या 1410/1979 और उसमें फाइनल की गई सम्बद्ध अन्वेषी आवेदनो में दिए गए विनिश्चय के विरुद्ध भारत सच द्वारा फाइनल की गई अपील

करने की विशेष इजाजत में उच्चतम न्यायालय के आदेश. यदि कोई हो, के अधीन रहते हुए 14 अक्टूबर, 1982 तक की, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, और अवधि के लिए प्रभावी बने रहेंगे।

[फा० सं० 4(5)/80 सी यू एस]

आर० के० भार्गव, सचिव सचिब

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

ORDER

New Delhi, the 10th September, 1982

S. O. 659 (E)/18AA/IDRA/82.—Whereas by the Order of the Government of India in the late Ministry of Industrial Development No. S. O. 542 (E)/18AA/IDRA/74, dated the 13th September, 1974, the Central Government had authorised a body of persons known as the Board of Management, to take over the management of Amritsar Oil Works, Amritsar, a factory of the industrial undertaking known as Amritsar Sugar Mills Co. Ltd., Amritsar, for a period of five years upto and inclusive of the 12th September, 1979;

And, whereas, by the Order of the Government of India in the Ministry of Industry No. S. O. 454(E), dated the 18th July, 1978, the said Board of Management was replaced by a new Board of Management for a period upto and inclusive of the 12th September, 1979;

And, whereas by the Order of the Government of India in the Ministry of Industry No. S. O. 525(E)/18AA/IDRA/79, dated the 11th September, 1979, the period of the said Orders dated the 13th September, 1974, and the 18th July, 1978, was extended upto and inclusive of the 12th September, 1981;

And, whereas, by the Order of the Government of India in the Ministry of Industry No. S. O. 695(E)/18AA/IDRA/81, dated the 11th September, 1981, the period of the said two Orders dated the 13th September 1974 and the 18th July, 1978 was extended upto and inclusive of the 12th March, 1982;

And, whereas, by the Order of Government of India in the Ministry of Industry No. S. O. 134(E)/18AA/IDRA/81 dated the 11th March, 1982, the period of the said two orders dated the 13th September 1974 and 18th July 1978 was extended upto and inclusive of the 12th September, 1982;

And, whereas the Central Government is of opinion that it is expedient in the public interest that the said two orders dated the 13th September, 1974 and 18th July 1978 respectively should continue to have effect for a further period;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 18AA of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby directs that the said two orders dated the 13th September 1974 and the 18th July 1978 continue to have effect for a further period upto and inclusive of 14th October, 1982 subject to the orders, if any, of the Supreme Court in the Special Leave Petition filed by the Union of India against the decision of the Delhi High Court dated the 3rd September 1982 in Civil Writ Petition No. 1410/1979 and the connected inter-locutory applications filed therein.

[File No. 4 (5)/80-CUS]

R. K. BHARGAVA, Jt. Secy.